



THE ASIAN SCHOOL, DEHRADUN

(SESSION :2022-23)

WINTER HOLIDAY HOMEWORK WORKSHEET-2

CLASS:VII

SUBJECT: HINDI

1. Attempt the worksheet in your subject homework notebook.
2. The worksheet is based on the topics which have been taught previously.
3. The worksheet is meant for practice and recapitulation and shall be discussed by the subject teacher once the classes resume.

(क) वाक्य किसे कहते हैं ?

(ख) वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है ?

(ग) अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ? सभी भेदों की परिभाषा व उदाहरण लिखिए ।

(घ) बहुविकल्पीय प्रश्न :

1 – ‘क्या मेरा भाई आपसे मिला ?’ इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है ?

- (i) विधान वाचक वाक्य
- (ii) संदेह वाचक वाक्य
- (iii) प्रश्न वाचक वाक्य
- (iv) आज्ञा वाचक वाक्य

2 – ‘वह बहुत ज़ोर से हँस रहा है।’ इस वाक्य को ‘विस्मय वाचक’ वाक्य में बदल कर लिखिए –

- (i) अरे ! वह बहुत ज़ोर से हँस रहा है।
- (ii) वह बहुत ज़ोर से क्यों हँस रहा है।
- (iii) वह बहुत ज़ोर से नहीं हँस रहा है।
- (iv) अरे वह बहुत ज़ोर से हँस ! रहा है।

3 – ‘राधा गृहणी है।’ इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाँट कर लिखिए –

- (i) उद्देश्य – गृहणी है , विधेय – राधा
- (ii) उद्देश्य – राधा , विधेय – गृहणी है
- (iii) उद्देश्य – है , विधेय – राधा
- (iv) उद्देश्य – गृहणी , विधेय – है

4 – ‘अभय डॉक्टर है।’ इस वाक्य को निषेध वाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा –

- (i) क्या अभय डॉक्टर है।
- (ii) अरे ! अभय डॉक्टर है।
- (iii) अभय डॉक्टर नहीं है।
- (iv) अभय डॉक्टर क्यों है।

5 – ‘ मेरा पत्र पिता जी को मिला। ‘ इस वाक्य को प्रश्न वाचक वाक्य में बदलिए –

- (i) क्या मेरा पत्र पिता जी को मिला ?
- (ii) शायद मेरा पत्र पिता जी को मिला।
- (iii) अरे ! मेरा पत्र पिता जी को मिला।
- (iv) मेरा पत्र पिता जी को नहीं मिला।

6 – ‘ मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है। ‘ यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है –

- (i) आज्ञा वाचक वाक्य
- (ii) संकेत वाचक वाक्य
- (iii) इच्छा वाचक वाक्य
- (iv) विस्मयादिबोधक वाक्य

7 – ‘ जिन वाक्यों में संदेह / संभावना का बोध होता है ‘ वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है –

- (i) संदेह वाचक वाक्य
- (ii) संकेत वाचक वाक्य
- (iii) इच्छा वाचक वाक्य
- (iv) विस्मयादिबोधक वाक्य

8 – ‘ रमा पत्र लिख रही है। ‘ इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है ?

- (i) विधान वाचक वाक्य
- (ii) संदेह वाचक वाक्य
- (iii) प्रश्न वाचक वाक्य
- (iv) आज्ञा वाचक वाक्य

9 – ‘ बहुत सुन्दर दृश्य है। ‘ इस वाक्य को ‘ विस्मय वाचक ‘ वाक्य में बदल कर लिखिए –

- (i) शायद बहुत सुन्दर दृश्य है।
- (ii) क्या सुन्दर दृश्य है।
- (iii) वाह ! कितना सुन्दर दृश्य है।
- (iv) बहुत सुन्दर दृश्य नहीं है।

10 – ‘ मजदूरों ने काम कर लिया। ‘ इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाँट कर लिखिए –

- (i) उद्देश्य – काम कर लिया , विधेय – मजदूरों ने
- (ii) उद्देश्य – मजदूरों ने , विधेय – काम कर लिया
- (iii) उद्देश्य – मजदूरों ने , विधेय – काम
- (iv) उद्देश्य – लिया, विधेय – मजदूरों ने

(इ) आपकी पाठ्य-पुस्तक में दिए गए पाठ नीलकंठ को पढ़ें तथा लिंक में दिए गए (1-15) प्रश्न-उत्तर कीजिये –

<https://www.vedantu.com/cbse/important-questions-class-7-hindi-vasant-chapter-15>